



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 13 फरवरी, 2023 / 24 माघ, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

OFFICE OF SECRETARY, NAGAR PANCHAYAT NERWA,
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Nerwa, the 3rd February, 2023

No. NP/Nerwa 2023-33.—Whereas the Nagar Panchayat Nerwa draft (Property Taxation) Bye-Laws 2022 were published by notice board dated 03-08-2022 *vide* Notification of even

number NP-Nerwa/2022 -236 for inviting Public Objections/Suggestions/Claims under Section 217 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994.

Whereas, no Objection / Suggestion /Claims were received within the stipulated period.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Clause (A) of Section 217 read with clause (d) of Section 65 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13), the final Municipality (Property Taxation Bye- Laws, 2022) are hereby notified and published in Rajpatra H.P. extraordinary for information of General Public as follows:—

NAGAR PANCHAYAT NERWA (PROPERTY TAXATION) BYE- LAWS, 2022

1. Short title and commencement.—(i) These Bye-Laws may be called the Nagar Panchayat Nerwa (Property Taxation) Bye-laws, 2022.

(ii) These bye-laws shall come into force from the date of their publication of its notification in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these bye-laws unless the context otherwise require;—

(i) ‘**Act**’ means the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994(Act No. 13 of 1994) read with its amendment carried out *vide* H.P. Municipal(Amendment) Act No. 2016 and *vide* H.P. Municipal Amendment Act, 2020.

(ii) ‘**Appellate Authority**’ means an authority prescribed under section 90 of H.P. Municipal Act, 1994.

(iii) ‘**Assessment List**’ means the list of all units of the lands and Buildings assessable to property tax under the provisions of the H.P. Municipal Act, 1994.

(iv) ‘**Assessment Year**’ means the year commencing from the first day of April to 31st day of March of succeeding year.

(v) ‘**Bye-Laws**’ means the Nagar Panchayat Nerwa (Property Taxation) Bye-Laws, 2022 made under the Act has notified in the official Gazette .

(vi) ‘**Municipality**’ means defined in section 2(24) of the Act

(vii) ‘**Section**’ means a Section of the Act

(viii) ‘**Rateable value**’ as defined in Section 2 clause(33-A) of the Act and procedure as prescribed under these bye-laws.

(ix) ‘**Unit**’ means a specific portion of the land and building in use and occupation of the owner(s) or occupier(s) including vacant land and buy it up portion of the building. This will not include setbacks area of Building agricultural lands and land in notified green belt as notified under the Interim Development Plan of Nerwa Area.

(x) ‘**Unit area**’ means area of a unit is square meters

- (xi) ‘**Unit area tax**’ means property tax on unit(s) of lands & Buildings which shall be charged per annum between one percent to twenty five percent as may be determined on the basis of rateable value of unit(s) of lands & Buildings by the Municipality from time to time. All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. Assessment list what to contain.—The Secretary shall keep a book to be called the “Assessment List” in which the following shall be entered in Form-A appended to these Bye-Laws:—

- (i) A list of all units of the lands and Buildings located within the jurisdiction of Nagar Panchayat Nerwa, distinguishing each, either by name or number and containing such particulars regarding the location or nature of each, which shall be sufficient for identification thereof;
- (ii) The rateable value of each unit of the lands and Buildings;
- (iii) The name of the person primarily liable for payment of property tax and rateable value as well as property tax demand on his/her unit of land or Building.
- (iv) If any such unit of a land or a Building is not liable to be assessed to the property tax, the reason for such non-liability; and /Other details; if any, as the Secretary may from time to time think, fit.

Explanation.—(i) for the purpose of clause(b) the rateable value of unit(s) of land will be the rateable value of unit(s) of the land and in the case of unit(s) of the building, the rateable value will include the rateable value of the land and the unit(s) of the building erected thereon.

(ii) For the purpose of charging property tax on a unit of land, the unit of land shall be treated as “land” till the completion plan of building is sanctioned by Nagar Panchayat Chopal or by other competent authority of the State Government and such construction is put to use on the spot whichever occurs first. Accordingly, property tax shall be continued to be charged on the rateable value of the unit of land till such time treating it as “land”.

4. Form of Assessment list.—The assessment list shall be kept in the Form-A hereto. The Secretary may order to add, omit, amend or alter any of the columns of the Performa of the assessment list as and when required.

5. Procedure where name of person primarily liable for property tax cannot be ascertained.—If the name of the person primarily liable for the payment of property tax in respect of any unit of any land or Building cannot be ascertained, it shall be sufficient to designate him in the assessment list, property tax bill and in any notice which may be necessary to serve upon the said person under the Act, as “the holder” of such unit of land or building without further description.

6. Inspection of assessment list.—if assessment list has been completed, the Secretary shall give public notice thereof mentioning therein the place where assessment list or copy thereof

may be inspected and every person claiming to be the owner or lessee or occupier of any unit(s) of any land or building included in the assessment list and any authorized agent of such person shall be at liberty to inspect the list and to file written objection within 30 days from the date of publication of such public notice in the local newspaper(s).

7. Register of objections.—The Secretary shall keep a register of objections in which all objections received under sub-section (2) of Section 74 and sub-sections(2) of Section 76 shall be entered. The register shall contain:—

- (i) The name or number of the land or Building in respect of which objection is received;
- (ii) Name of the person primarily liable for the payment of property tax;
- (iii) Name of the objector;
- (iv) The ratable value finally fixed after enquiry and investigation of the objection by the Committee constituted in this behalf;
- (v) The date from which the ratable value finally fixed has to come into force; and
- (vi) Such other details as the Secretary may from time to time think, fit.

8. Amendment of assessment list as per provisions of Section 76 and investigation and disposal of objections against such amendment.— (i) When any amendment is proposed to be made under the provisions of Section 76 such amendment will provisionally be made in the assessment list and the notice as required under the provision of the subsection of (1 and 3) of Section 76 shall be served on the person affected by the amendment after affording him the opportunity to file objection, if any, against the proposed amendment within 30 days from the date of receipt of such notice.

(ii) Objections shall be inquired into the investigated by the Committee constituted in this behalf under Sub Section 1 of Section 75 of the Act, after affording opportunity of being heard to the objector.

(iii) The assessment list shall be finally amended in accordance with the decisions made by the said Committee.

(iv) If no objection is received or if the same are received but not within the time limit specified in this behalf in the notice, the assessment list shall be finally amended by confirming the provisional amendment made in the assessment list. However, for special reasons to be recorded in writing, the Committee constituted in this behalf may consider objections received after the expiry of the stipulated period.

(v) Property tax on the basis of the amended assessment list shall be due from the date specified in the assessment notice or from the date as may be decided by the Committee constituted in this behalf. Provided that the payment of property tax on the basis of the assessment list, as

existing before such an amendment will not be withheld on the ground that some amendment is to be made in the list.

9. Payment of property taxes where to be made.—Every person who is liable to pay any of the property tax shall pay the same at the Office of the Nagar Panchayat Nerwa or at such other place(s) and time as may be specified by the Secretary as the case may be. However, the payment of tax shall be made either by cash or cheque or through Bank Draft Drawn in favour of the Secretary, Nagar Panchayat Nerwa, payable at Nerwa or through RTGS in the Bank Account of Nagar Panchayat Chopal declared for the said purpose by the Secretary as the case may be.

10. Demand of property tax to be raised annually by issuing one single bill for one unit of a property.—(i) Demand of property tax shall be raised annually by issuing a single property tax bill on form-B annexed to these bye-laws for each unit of a property. The service of bill shall be effected by hand through special messenger and in case owner or occupier upon whom the bill is to be served is living outside the Nagar Panchayat limits, the bill shall be issued by post under certificate of posting or by registered/ speed post. In case the owner or occupier avoids by hand service of the bill, the same shall be effected by affixing the bill in presence of two witnesses on the unit of the property to which the bill relates.

(ii) In case the owner or occupier upon whom the property tax bill has been served, fails to make payment of the property tax within the due date, the property tax shall be recovered by the Secretary or by the officer/ official authorized by him in this behalf by initiating appropriate process under the provisions of Section 86 of the Act:

Provided that nothing herein contained shall affect the liability of such person to any increased property tax to which he may be assessed on account of the said unit of property owing to a revision of the ratable value.

(iii) The tax for the ensuring year shall be paid either in lump-sum within 30 days at the beginning of the financial year *i.e.* up to 30th April or in two half yearly installments. The first installments. The first installment to be paid by 30th April and second installment by 30th October every year.

11. Service of property tax bills and demand notices in respect of un-partitioned unit of property.—If an un-partitioned unit of a property is owned by more than one person, service of bill(s) and notice(s) of demand on any one co-owner shall be treated as service on all the owners.

12. Demand and collection.—(i) A register of demand & collection of property tax in Form-F appended to these bye-laws shall be maintained showing therein the figures of property tax demand, collection, rebate, remission adjustment, arrears, excess recoveries and such other particulars in relation to each unit of the property. This register will be kept either in the shape of hard copy or in the shape of soft copy or in both as the Secretary as the case may be think fit.

(ii) The register may, if any, the Secretary as the case may be think fit be made in separate parts or volumes for such purposes and with such several designations as the Secretary as the case may be determine.

(iii) The separate Register shall be maintained for recording information regarding detail of arrears for the previous years.

13. Circumstances not considered as vacancy of property:- For the purpose of Section 81 and 84 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994:—

- (i) A unit of building or of a tenement reserved by the owner for his own occupation shall be deemed to be occupied, whether it is actually occupied by the owner or not;
- (ii) Any unit of building or of a tenement used or intended to be used for the purpose of any industry which is seasonal in character shall not be deemed to be vacant merely on an account of its being unoccupied and unproductive of rent during such period or periods of the year in which seasonal operations are normally suspended.

14. Remission /Refund not claimable unless notice of vacancy is given to the Commissioner every year.—When a vacancy continues from one year into the following year, no refund or remission of any property tax shall be claimable from the Nagar Panchayat on an account of such continued vacancy unless notice thereof is given to the Secretary within 60 days from the commencement of the next financial year.

15. Inspection by Nagar Panchayat Staff of the vacant unit of the property.—If any owner or occupier does not allow or facilitate the inspection by the authorized Nagar Panchayat staff of any unit of the property claimed by him to be vacant, the Secretary as the case may be refuse to treat such unit of building of tenement, as the case may be, as vacant till the day such inspection is made, and the vacancy of the unit of property is verified.

16. Copies of property tax bill(s).—The Secretary as the case may be, on a request in writing from the owner of any unit of land or Building or any other person primarily liable to pay property tax in respect thereof, give a copy or copies of any bill/ bills for any property tax on payment of such fee as may be fixed by the Secretary from time to time.

17. Notice of transfer of title.—The notice regarding transfer of title of any unit of any property required to be given under section 83 shall be either in Form- C or in Form-D annexed to these bye-laws, as the case may be, and shall state clearly and correctly all the particulars required in the said Form(s).

18. Property tax to be paid upto date.—No such notice as contained in bye-laws 17 above shall be deemed to be validly given unless the property tax due upto the date of transfer of title of the unit of property is paid in full.

19. Filling of return by owner(s)/ Occupier(s).—The Secretary may require any owner or occupier of a unit of land or building or of any portion thereof to furnish information or a written return in Form-E appended to these bye-laws. Every owner or occupier on whom any such requisition is made shall be bound to comply with the same and to give true information or to make a true return to the best of his/her knowledge or belief, within a period of thirty days from the service of such requisition upon him/her.

20. Penalty for non-submission of return.—Whosoever omits to comply with any requisition under 19 bye-laws of these bye-laws or fails to give true information or to make a true return to the best of his/her knowledge or belief, shall in addition to any penalty under section 82 of

the Act, be precluded from objecting to any assessment made by the Secretary in respect of such unit of the lands or Building of which he/ she is the owner or occupier.

21. Inspection of tax record.—Every owner, lessee or occupier of a unit of land and building or authorized agent of any such person may, with the permission in writing of the Secretary or any officer/official authorized by him in this behalf inspect the tax record relating to the unit of the land/building of which is owner, lessee, agent or occupier free of charge during the office hours.

22. Location factor, characteristic and its value.—For the purpose of clause(33-A) (c) of Section 2 of the Act, the location Factor, Characteristic and its values shall be as under:—

Tentative Zoning of Nerwa town proposed as follows:—

Zone A:— Ward No. 3, 4, 5, 6 &7(Market Area)

Zone B:— Ward No. 1 & 2 (Residential Area)

(i) Number of Zones:— 2

(III) Location factor(F-1):

Location (Zone) no.		Value per square mtr.
A	=	3.00
B	=	2.00

23. Structural factor, characteristics and its value:— For the purpose of clause (33-A) (c) of Section 2 of the Act, Buildings shall be classified as Pucca, Semi-Pucca and Kutcha in the following manner.

- (i) For Pucca-buildings, value per Sq.mtr. = 3.00
- (ii) For Semi-pucca building, value per Sq.mtr. = 2.00
- (iii) For Kutcha building value per Sq.mtr. = 1.00

24. Age Factor and Age-wise grouping and value of the Building.—For the purpose of clause(33-A)(c) of Section 2 of the Act, all the buildings shall be grouped age-wise having factor value as mentioned against each age group as under:—

Group	Building	Factor Value
A	Before 1947	1.50
B	1947 to 1980	2.00
C	1981 to 2000	3.00
D	2001 to 2020	4.00
E	2021 and beyond	5.00

25. Occupancy factor, characteristics and its value.—The occupancy factor and its value shall be as under For the purpose of Clause(c) *ibid* :—

(i) Value for residential occupancy:—

(a) Value for self residential	(b) Value for Let out residential
2	4.00

(ii) Value per Sq.mtr. for non-residential Occupancy.

A	B	C	D	E
Hotel above built up area of 3000 Sq.mtr., MNC Show Rooms and Restaurants.	Hotel having built up area between 100 to 300 Sq. mtr. And show room above 100 Sq. mtr. To 300 sq. mtr.	Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATM's show rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centre less than 100sq. mtr.	Shops, School, Colleges, Education institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House less than 100 sq.mtr.	Godowns, Dhaba Stall and other Types of Properties not covered Under (A to D) less than 100 sq. mtr.
15	12	8	8	8

or

Commercial less than 100 sq.m.	Commercial between 100-300 sq.m.	Commercial greater than 300 sq. m.	Residential by owner	Residential by other
8	12	15	2	4

26. Use factor, characteristic and its value.—For the purpose of Clause (33-A) of Section 2 of the Act, the Value of use factor and characteristic of the unit(s) of Lands & Buildings for the purpose of clause 33-A *ibid* shall be under

(i) Residential = 2.00/-

(ii) Non-Residential = 3.00/-

27. Method of calculation of rateable value and rate of property tax on the net rateable value of the lands and buildings shall be as under:—

Area (in sq. mtrs) of a unit multiplied by value of relevant factors of unit area method as mentioned in 23 to 27 of the bye laws. The figure that will so come out, thereof shall be the net rateable value of unit and property tax shall be charged on that net rateable value at the rate of ____% in zone A and ____% in zone B for lands and in case of buildings as under:—

A-zone	B-zone
(i) For self occupied residential properties measuring 1 sq.mtr. to 100 sq. mtrs. @ 12% P.A. on the R.V. (Rateable Value).	(i) For self occupied residential properties measuring 1 sq.mtr. to 100 sq. mtrs. @ 12% P.A. on the R.V. (Rateable Value).
(ii) For self occupied residential properties. Measuring 101 sq. mtrs. to above @ 12% P.A. on the R.V. (Rateable Value).	(ii) For self occupied residential properties. Measuring 101 sq. mtrs. to above @ 12% P.A. on the R.V. (Rateable Value).
(iii) For non-residential properties @ 12% P.A. on the rateable value.	(iii) For non-residential properties @ 12% P.A. on the rateable value.

28. Penalty.—If a person liable for payment of Property Tax does not pay the same with in a period of one month from the issue of tax bill, a person shall be liable for payment of interest as per Section 86 & 87 of the Act beside initiation of recovery proceeding as per the provision of Section 89 of the Act. Further, whosoever contravenes any of the clauses of these Bye-Laws shall be, in addition to the penalties as provided under the act, liable for disconnection of water, electricity and other civic amenities and the Secretary, as the case may be request the competent authority to withdraw registration/recognition, if any granted, in his/their favour.

29. Repeal and Savings.—The scheme, regulation or Bye-Laws, if any hereto for relating to the mode of levy, calculation and assessment of property tax is hereby repealed. Anything done or any action taken under the said scheme, regulation or bye-laws if any shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these bye-laws.

Sd/-
Secretary,
Nagar Panchayat Nerwa,
Distt. Shimla (H.P.).

Nagar Panchayat Nerwa				
FORM –A (See Bye Laws-4)				
TAX DEPARTMENT ASSESSMENT LIST				
UPN-No _____ I.D. No. _____ ZONE _____				
Unit	Area	Net Rateable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

DATE OF ASSESSMENT				
Sl. No.	Name of Property	Name of Owner	Name of Tenant or Occupier	Remarks

9994

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944

FORM-B

Nagar Panchayat Nerwa

(Tax Department)

(See Bye-Laws 10)

Property Tax Bill

Financial Year for the Year _____ Bill No. _____ Dated _____
 Zone _____

Bill(s) Detail

UPN No. _____
 ID No. _____
 Name of Property _____
 Name of Owner/Occupier _____
 Correspondence Address _____

Due date 15 days from the date of Receipt of bill/18 days if by post from the date of dispatch of bill.

Unit	Area	Net Rateable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

Detail of demand for Property Tax for the year _____ Period _____

Sl. No.	Description of Tax	Amount
1.	General Tax	
2.	(a) Rebate @ 10% (b) Remission	
3.	Previous Arrear Amount for the period _____	
4.	Interest Amount	
5.	Previous Credit	
6.	Amount Payable on due date	
7.	Amount Payable after due date	
8.	Amount still at credit	

Please pay bill before due date to avail 10% rebate.

Bill Prepared By

Bill Checked By

Assistant Tax Superintendent

Receipt

UPN No. _____	Bill No. _____ Bill Date _____
ID No. _____	Amount before due date _____
Name of Owner/Occupier _____	Amount after due date _____
	Amount Paid _____
	Receipt No. _____ Dated _____

*Cashier,
Nagar Panchayat Nerwa.*

Terms & Conditions

1. The Municipality Treasury is open from 10.00 A.M. to 02.00 P.M. on all working days.
2. Cheques should be drawn in favour of Secretary, as the case may be, Nagar Panchayat Nerwa.
3. Out stations cheques should include the discount charged in such cheque(s)
4. Rebate @ 10% is given on the taxes claimed for the current year or a bill raised for the first time, if the amount specified in the bill is paid within 15 days from the presentation thereof. Bills sent under postal certificate shall be construed to have been received within three days from the date of posting and accordingly this rebate is given if payment of the bill is made within 18 days from the date of posting.
5. If the payment of the tax is not made within the financial years in which the bill is issued an interest @ 1% per month shall be payable after one month of the close of the financial year to which the bill relates.
6. The notice of demand/recovery of property tax will not confer any right on the person paying the tax or anyone else to claim validation of unauthorized construction at a later date and the same is without any prejudice to the rights of the Chopal Municipality to take any legal action including that of demolition in respect of such unauthorized construction/structure.
7. In case any of your payments have not been adjusted, same can be adjusted/settled by producing original receipts given by Municipality Nerwa.
8. In all correspondence, always mention No./date, name of house and demand No.
9. Bill generated be presented while tendering payment

FORM-C
(See Bye-Law 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place by way of instrument

To

The Secretary,
Nagar Panchayat Nerwa

I _____ s/o _____
r/o _____ hereby
give notice as required by Section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of
property:—

Description of Property

Name & address of person whose title has been transferred	Name & address of person to whom property title has been transferred	Detail of Property	Area of the property	Account No./ID No. of old assesses	Remarks
1	2	3	4	5	6

Date _____

Name of Owner/Occupier _____

Address _____

Mob.No. _____

FORM-D
(See ByeLaw 17)

Form of notice of Transfer to be given which has taken place otherwise than by instrument

To

The Secretary,
Nagar Panchayat Nerwa

I _____ s/o _____
r/o _____ hereby
give notice as required by section 83 of the H.P. Municipal Act, 1994 of the following transfer of
property:—

Name & address of person whose title has been transferred	Name of legal heir/successor to whom property title has been transferred	Detail of Property	Area of the property	Account No./ ID No. of old assesses	Remarks
1	2	3	4	5	

FORM-E
(See Bye-Law 19)

I am submitting the details of property known as..... I.D. No.Ward
No.Zone.....as under:—

[illegible]

	(a) Hotel above built up area of 2000 sq.m., MNC Show Rooms and Restaurants.										
	(b) Hotel having built up area between 1000 to 2000 sq.m. and show room above 1000 sq. m.										
	(c) Other Hotels, Bars, Restaurant, Banks, ATMs, Show rooms, Call Centre, Marriage Hall, Travel Agency, Mobile Towers, Coaching Centre.										
	(d) Shops, Schools, Colleges, Education institutions, Offices, Hostel, Hospital, Theatre, Clubs, Paying Guest House (PGs), Guest House.										
	(e) Godowns, Dhaba, Stall and Other Types of Properties not covered Under (a to d).										
3.	Plot of Land										

I hereby declare that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and proper belief and nothing has been concealed there from.

Date

Yours faithfully,

(Signature)
Owner/Agent/Occupier.

Name in block letters

Address.....

Mob. No.

*Verification of the
Assistant Tax Superintendent*

*Verification of the
Executive Officer/Secretary*

FORM-F

Nagar Panchayat Nerwa
Demand and Collection Register
(See Bye-Laws 12)

For the Financial Year

UNP No. _____
ID No. _____
Name of Property: _____
Name of Owner/Occupier: _____
Correspondence Address: _____

Unit	Area	Net Rateable Value	Property Tax Percentage	Amount of General Tax
Residential				
Let Out Residential				
Commercial				
Plot of Land				

General Tax	Rebate	Total General Tax	Previous Arrear Amount	Interest	Net Amount Payable	Bill No.	Date of issuing Bill	Current General Tax Collection	Rebate & Remission	Arrear Collection	Interest Collection	Receipt No.	Receipt Date	Current Balance Amount	Arrear Balance Amount	Credit	Remarks

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 8th February, 2023

No. Shram (A)4-1/2021-Loose.—In exercise of the powers conferred under Section 18(3) of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of

Service) Act, 1996, and Rule 251(2) of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules-2008, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Dhani Ram Shandil, Hon'ble Minister for Health, Social Justice and Empowerment, and Labour & Employment, Himachal Pradesh Government as the Chairman of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers' Welfare Board till further orders.

By order,

Sd/-

Secretary,
(Labour & Employment).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th February, 2023

No. TPT-F(6)-3/2015-II.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Monitoring Committee consisting of the following members to monitor the day-to-day progress regarding installation of charging stations in the State, with immediate effect, in public interest:—

1.	The Pr. Secretary (Transport) to the Govt. of H.P.	<i>Chairman</i>
2.	Director Transport, H.P.	<i>Member</i>
3.	Director Industries, H.P.	<i>Member</i>
4.	Director Urban Development, H.P.	<i>Member</i>
5.	Director, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, H.P.	<i>Member</i>
6.	Director, Energy Department, H.P.	<i>Member</i>
7.	Director, Rural Department	<i>Member</i>
8.	Managing Director, HPSEBL, Shimla	<i>Member</i>
9.	Secretary, STA-cum-Addl. Comm. Transport, H.P.	<i>Member Secretary</i>

The above Monitoring Committee shall nominate the representative of any Department/Organization/Association or a person for its meeting as per need.

The functions of the Monitoring Committee will be as under:—

1. The Committee shall review the implementation and effectiveness of the Electric Vehicles & Public Charging Stations on monthly basis and corrective measures/changes/amendments if required shall be done accordingly.
2. To provide guidance for the functioning and structure of the Public Charging Stations.
3. To evaluate all relevant information, reports and correspondence received from the District Administration/Investors/Stakeholders in time bound manner.

4. To evaluate the complaints procedure and the channels of communication with the public and to ensure improvements, where necessary.
5. To promote awareness and capacity building regarding site activities among the investors and appropriate stakeholders.
6. A viable business model will be developed for private players to set up EV charging stations/infrastructure alongwith all types of roads as per standards notified for Public Charging Infrastructure (PCI) by Ministry of Power, GOI guidelines.

By order,

Sd/-

(R.D. NAZEEM)

Principal Secretary (Transport).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.)

1. Sh. Kapil Kumar age 26 years s/o Shri Avtar Singh, r/o Vill. Amtrar, P.O. Sunehar, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

2. Reetu Choudhary age 25 years d/o Bachitter Singh, r/o V.P.O. Samirpur, Tehsil & District Kangra (H.P.).

Versus

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage.

Applicants Sh. Kapil Kumar age 26 years s/o Shri Avtar Singh, r/o Vill. Amtrar, P.O. Sunehar, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) & Reetu Choudhary age 25 years d/o Bachitter Singh, r/o V.P.O. Samirpur, Tehsil & District Kangra (H.P.) has filed an application under section 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 21-06-2022 at Shree Chamunda Nandikeshwar Mandir, Tehsil Dharamshala as per Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 20-02-2023. The objection received after 20-02-2023, will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-01-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम।

पेशी : 20-02-2023

कुंवर कुमार पुत्र हरी चन्द, निवासी झरेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—इश्तहार बाबत दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(1) के तहत महाल झरेड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम कुंवर कुमार पुत्र हरी चन्द है जबकि महाल झरेड़ के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम उमर दास पुत्र हरि चन्द पुत्र वजीरु दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महालात में उक्त नाम को उमर दास उपनाम कुंवर कुमार पुत्र हरी चन्द पुत्र वजीरु दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 20-02-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 07-01-2023 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 01/T/C/2023

तारीख दायरा : 18-01-2023

तारीख पेशी : 21-02-2023

विजय कुमार पुत्र सुखदेव सिंह, वासी महाल घाटी विल्वां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल घाटी विल्वां में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड महाल घाटी विल्वां में केसर सिंह पुत्र ध्यान सिंह दर्ज है जबकि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व पंचायत रिकार्ड में सुखदेव सिंह पुत्र ध्यान सिंह दर्ज है जोकि सही नाम है।

प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल घाटी विल्वां में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती केसर सिंह उपनाम सुखदेव सिंह पुत्र ध्यान सिंह के रूप में करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार/नोटिस राजपत्र हि0प्र0 के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-01-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जगदीश चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा तकसीम नं0 : 26/2021/टी0टी0पी0

तारीख पेशी : 21-02-2023

श्री रूप सिंह पुत्र दुर्गा सिंह, वासी महाल भ्रान्ता, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

श्रीमती वृजना देवी पुत्री कर्म सिंह आदि महाल भ्रान्ता, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम:—1. श्री नवदीप सिंह पुत्र देव चन्द महाल नरवाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रतिवादी।

विषय.—हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954, की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 66, खतौनी नं0 135, ता0 136, खसरा कित्ता 9, रकबा तादादी 00-33-11 है0, वाक्या महाल भ्रान्ता, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री रूप सिंह पुत्र दुर्गा सिंह, वासी महाल भ्रान्ता, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 66 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादी को इस इशतहार राजपत्र व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असातन या वकालतन तारीख पेशी 21-02-2023 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20-01-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 01C/2023

तारीख पेशी : 22-02-2023

सरला देवी पत्नी राजिंदर कुमार, निवासी महाल तरयामलू, डा0 मझीण, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय:- नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया सरला देवी पत्नी राजिंदर कुमार, निवासी महाल तरयामलू, डा0 मझीण, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त सियालकड़ के महाल भटाल कलां, उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के राजस्व अभिलेख में वेरा देवी पुत्री रसीला राम दर्ज है। जबकि परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम सरला देवी दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सियालकड़ के महाल भटाल कलां व उप-तहसील मझीण में उसका नाम वेरा देवी के बजाये वेरा देवी उपनाम सरला देवी दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों की वह एक ही महिला है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-02-2023 को प्रातः 11.00 बजे तक असातन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा सरला देवी पत्नी राजिंदर कुमार, निवासी महाल तरयामलू, मौजा व उप-तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सियालकड़ के महाल भटाल कलां में वेरा देवी पुत्री रसीला राम के बजाये वेरा देवी उपनाम सरला देवी पुत्री रसीला राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 :
149/2022

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

खाता नम्बर :
46

तारीख पेशी :
22-02-2023

1. विजय कुमार पुत्र चैनू राम, निवासी महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. दलवीर राम पुत्र जालम, 2. महिन्द्र कुमार पुत्र धनी राम, 3. शशी चन्द पुत्र धनी राम, 4. अनिता कुमारी पुत्री धनी राम, 5. जगतम्बा देवी पत्नी स्व० धनी राम, 6. राम किशोर पुत्र वांका राम निवासीगण महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन अधीन धारा 123 हि०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं० 46, खतौनी नं० 59, खसरा नं० 323, कित्ता 01, रकबा तादादी 00-03-79 हैक्ट० अनुसार जमाबन्दी 2019-2020 महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए। परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 22-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-01-2023 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० :
143/2022

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

खाता नम्बर :
98

तारीख पेशी :
22-02-2023

1. विजय कुमार पुत्र चैनू राम, निवासी महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थीगण।

बनाम

1. शिवानी पुत्री चमन लाल, 2. श्वेता पुत्री चमन लाल, 3. सुरभी पुत्री चमन लाल, 4. वन्दना पत्नी स्व० चमन लाल, 5. प्रदीप कुमार पुत्र सालीग्राम, 6. हरबंश लाल पुत्र सालीग्राम, 7. ऋषि कुमार पुत्र शांति स्वरूप, 8. महिन्द्र कुमार पुत्र धनी राम, 9. शशी चन्द पुत्र धनी राम, 10. अनिता कुमारी पुत्री धनी राम, 11. जगतम्बा देवी पत्नी स्व० धनी राम, 12. राम किशोर पुत्र वांका राम निवासीगण महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन अधीन धारा 123 हि०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं० 98, खतौनी नं० 128, ता 138, खसरा कित्ता 13, रकबा तादादी 00-95-16 हैक्ट० अनुसार जमाबन्दी 2019-2020 महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए। परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण

तरीके से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 22-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-01-2023 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 :
146 / 2022

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

खाता नम्बर :
100

तारीख पेशी :
22-02-2023

1. विजय कुमार पुत्र चैनू राम, निवासी महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. शिवानी पुत्री चमन लाल, 2. श्वेता पुत्री चमन लाल, 3. सुरभी पुत्री चमन लाल, 4. वन्दना पत्नी स्व0 चमन लाल, 5. प्रदीप कुमार पुत्र सालीग्राम, 6. हरबंश लाल पुत्र सालीग्राम, 7. ऋषि कुमार पुत्र शांति स्वरूप, 8. महिन्द्र कुमार पुत्र धनी राम, 9. शशी चन्द पुत्र धनी राम, 10. अनिता कुमारी पुत्री धनी राम, 11. जगतम्बा देवी पत्नी स्व0 धनी राम निवासीगण महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन अधीन धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं0 100, खतौनी नं0 139, खसरा नं0 604, किता 01, रकबा तादादी 00-20-66 हैक्ट0 अनुसार जमाबन्दी 2019-2020 महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किया गए। परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 22-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-01-2023 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० :
145/2022

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

खाता नम्बर :
225

तारीख पेशी :
22-02-2023

1. विजय कुमार पुत्र चैनू राम, निवासी महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र सालीग्राम, 2. ऋषि कुमार पुत्र शांति स्वरूप, 3. वीना देवी पुत्री चैनू राम, 4. किशोर पुत्र वांका राम, 5. रवि कुमार पुत्र पुन्नु राम, 6. संजय कुमार पुत्र पुन्नु राम, 7. विपन कुमार पुत्र पुन्नु राम, 8. रविन्द्र कुमार पुत्र पुन्नु राम, 9. नीलम पुत्री पुन्नु राम, 10. रीना देवी पुत्री पुन्नु राम, 11. गुफा देवी पत्नी पुन्नु राम निवासीगण महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन अधीन धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं० 225, खतौनी नं० 284, खसरा कित्ता 02, रकबा तादादी 00-06-47 हैक्ट० अनुसार जमाबन्दी 2019-2020 महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए। परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 22-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-01-2023 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० :
147/2022

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

खाता नम्बर :
102

तारीख पेशी :
22-02-2023

1. विजय कुमार पुत्र चैनू राम, निवासी महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. राजिन्द्र कुमार पुत्र सुदामा राम, 2. रविन्द्र कुमार पुत्र सुदामा राम, 3. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र सुदामा राम, 4. कान्ता देवी पुत्री सुदामा राम, 5. कृष्णा देवी पुत्री सुदामा राम, 6. स्वर्णा देवी पुत्री सुदामा राम, 7. अविनाश दत्त पुत्र सुरेन्द्र कुमार, 8. मिनाक्षी देवी पुत्री सुरेन्द्र कुमार, 9. मधु देवी पुत्री सुरेन्द्र कुमार, 10. सुनीता देवी पत्नी स्व० सुरेन्द्र कुमार, 11. शिवानी पुत्री चमन लाल, 12. श्वेता पुत्री चमन लाल, 13. सुरभी पुत्री चमन लाल, 14. वन्दना पत्नी स्व० चमन लाल, 15. प्रदीप कुमार पुत्र सालीग्राम, 16. हरवंश लाल पुत्र सालीग्राम, 17. ऋषि कुमार पुत्र शांति स्वरूप, 18. महिन्द्र कुमार पुत्र धनी राम, 19. शशी चन्द पुत्र धनी राम, 20. अनिता कुमारी पुत्री धनी राम, 21. जगतम्बा देवी पत्नी स्व० धनी राम निवासीगण महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन अधीन धारा 123 हि०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं० 102, खतौनी नं० 141, खसरा कित्ता 3, रकबा तादादी 00-12-94 हैक्ट० अनुसार जमाबन्दी 2019-2020 महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए। परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 22-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-01-2023 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० :
144 / 2022

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

खाता नम्बर :
184

तारीख पेशी :
22-02-2023

1. विजय कुमार पुत्र चैनू राम, निवासी महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थीगण।

बनाम

1. शिवानी पुत्री चमन लाल, 2. श्वेता पुत्री चमन लाल, 3. सुरभी पुत्री चमन लाल, 4. वन्दना पत्नी स्व० चमन लाल, 5. प्रदीप कुमार पुत्र सालीग्राम, 6. हरवंश लाल पुत्र सालीग्राम, 7. ऋषि कुमार पुत्र शांति स्वरूप, 8. महिन्द्र कुमार पुत्र धनी राम, 9. शशी चन्द पुत्र धनी राम, 10. अनिता कुमारी पुत्री धनी राम, 11. जगतम्बा देवी पत्नी स्व० धनी राम, 12. सुदर्शना कुमार उपनाम सुदर्शन चन्द्र पुत्र राम किशन निवासीगण महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन अधीन धारा 123 हि०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं० 184, खतौनी नं० 237, खसरा नं० 371, 378, कित्ता 02, रकबा तादादी 00-26-01 हैक्ट० अनुसार

जमाबन्दी 2019-2020 महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए। परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 22-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-01-2023 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० :
148/2022

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

खाता नम्बर :
101

तारीख पेशी :
22-02-2023

1. विजय कुमार पुत्र चैनू राम, निवासी महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. शिवानी पुत्री चमन लाल, 2. श्वेता पुत्री चमन लाल, 3. सुरभी पुत्री चमन लाल, 4. वन्दना पत्नी स्व० चमन लाल, 5. प्रदीप कुमार पुत्र सालीग्राम, 6. हरवंश लाल पुत्र सालीग्राम, 7. ऋषि कुमार पुत्र शांति स्वरूप, 8. महिन्द्र कुमार पुत्र धनी राम, 9. शशी चन्द पुत्र धनी राम, 10. अनिता कुमारी पुत्री धनी राम, 11. जगतम्बा देवी पत्नी स्व० धनी राम, 12. किशोर पुत्र वांका राम, 13. प्रभु पुत्र छजू, 14. शमशेर सिंह पुत्र लाला पुत्र नामालूम, 15. होशियारु पुत्र लाला पुत्र नामालूम, 16. हरिया पुत्र लाला पुत्र नामालूम निवासीगण महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन अधीन धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं० 101, खतौनी नं० 140, खसरा नं० 124, 125, कित्ता 2, रकबा तादादी 00-03-63 हैक्ट० अनुसार जमाबन्दी 2019-2020 महाल कस्बा, मौजा कस्बा पुन्नर, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए। परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 22-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-01-2023 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 :
174 / 2022

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

खाता नम्बर :
62

तारीख पेशी :
22-02-2023

1. सतीश कुमार पुत्र जगन नाथ, 2. सुदेश कुमारी पुत्री जगन नाथ, 3. राम प्यारी पुत्री जगन नाथ
निवासीगण महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र ज्योति प्रकाश, 2. राजेश कुमार पुत्र ज्योति प्रकाश, 3. निर्मला देवी पत्नी ज्योति
प्रकाश निवासीगण महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन अधीन धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं0 62,
खतौनी नं0 109, खसरा कित्ता 18, रकबा तादादी 00-59-79 हैक्ट0 अनुसार जमाबन्दी 2019-2020
महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन
जारी किए गए। परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण
तरीके से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को
सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 22-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी की
अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आए अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में
लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-01-2023 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 :
172 / 2022

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

खाता नम्बर :
63

तारीख पेशी :
22-02-2023

1. सतीश कुमार पुत्र जगन नाथ, 2. सुदेश कुमारी पुत्री जगन नाथ, 3. राम प्यारी पुत्री जगन नाथ
निवासीगण महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र ज्योति प्रकाश, 2. राजेश कुमार पुत्र ज्योति प्रकाश, 3. निर्मला देवी पत्नी ज्योति प्रकाश निवासीगण महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन अधीन धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं0 63, खतौनी नं0 113, ता 115, खसरा कित्ता 4, रकबा तादादी 00-05-64 हैक्ट0 अनुसार जमाबन्दी 2019-2020 महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए। परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 22-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-01-2023 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 :
173 / 2022

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

खाता नम्बर :
65

तारीख पेशी :
22-02-2023

1. सतीश कुमार पुत्र जगन नाथ, 2. सुदेश कुमारी पुत्री जगन नाथ, 3. राम प्यारी पुत्री जगन नाथ निवासीगण महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र ज्योति प्रकाश, 2. राजेश कुमार पुत्र ज्योति प्रकाश, 3. निर्मला देवी पत्नी ज्योति प्रकाश निवासीगण महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम हुकमन अधीन धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं0 65, खतौनी नं0 117, खसरा नं0 380, रकबा तादादी 00-01-78 हैक्ट0 अनुसार जमाबन्दी 2019-2020 महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए। परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 22-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी की

अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-01-2023 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भवारना,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 :
171 / 2022

किस्म मुकद्दमा :
तकसीम

खाता नम्बर :
70

तारीख पेशी :
22-02-2023

1. सतीश कुमार पुत्र जगन नाथ, 2. सुदेश कुमारी पुत्री जगन नाथ, 3. राम प्यारी पुत्री जगन नाथ
निवासीगण महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र ज्योति प्रकाश, 2. राजेश कुमार पुत्र ज्योति प्रकाश, 3. निर्मला देवी पत्नी ज्योति
प्रकाश निवासीगण महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र तकसीम हुक्मन अधीन धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 भूमि खाता नं0 70,
खतौनी नं0 122, खसरा नं0 1075/1000/371, कित्ता 1, रकबा तादादी 00-08-10 हैक्ट0 अनुसार
जमाबन्दी 2019-2020 महाल गदियाड़ा, मौजा डरोह, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन
जारी किए गए। परन्तु अदालत की सन्तुष्टि हेतु यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण को साधारण
तरीके से तामील होना असम्भव है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादीगण को
सूचित किया जाता है कि इस तकसीम मुकद्दमा की पैरवी हेतु वह दिनांक 22-02-2023 को अधोहस्ताक्षरी की
अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आएँ अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में
लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-01-2023 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भवारना, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Nomi Thakur d/o Sh. Devender Singh, r/o Village Girli, P.O. and Tehsil Nankhari, District Shimla, H.P. declare that I have changed my name from Nomi Thakur to Radhika Thakur. All concerned may note please.

NOMI THAKUR
*d/o Sh. Devender Singh,
r/o Village Girli, P.O. and Tehsil Nankhari,
District Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Kaju Bala d/o Sh. Devender Singh, r/o Village Girli, P.O. and Tehsil Nankhari, District Shimla, H.P. declare that I have changed my name from Kaju Bala to Kriti in my entire records. Concerned please note.

KAJU BALA
*d/o Sh. Devender Singh,
r/o Village Girli, P.O. and Tehsil Nankhari,
District Shimla (H.P.).*

